

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

06 अक्टूबर 2019

जामिया की आरसीए के 170 उम्मीदवारों ने यूपीएससी लोक सेवा:मेन: परीक्षा दी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की मशहूर रेज़िडेन्शल कोचिंग एकेडमी:आरसीए: के कुल 170 उम्मीदवारों ने साल 2019 की केन्द्रीय लोक सेवा आयोग:मेन: की परीक्षा दी।

इन 170 में से 104 ने अक्टूबर 2018 में आरएसए में कोचिंग के लिए दाखिला लिया था और बाकी ने जुलाई 2019 में सीविल सर्विसेज़:मेन: 2019 के कोचिंग प्रोग्राम के लिए अपने को पंजीकृत कराया।

लोक सेवा:मेन: के नतीजे दिसंबर 2019 में आने की संभावना है और पर्सनैलिटी टेस्ट जनवरी-फरवरी 2020 में होंगे।

परीक्षा में सफलता पाने वाले उम्मीदवारों को यूपीएससी की तर्ज़ पर कई माँक इंटरव्यू के ज़रिए साक्षात्कार के लिए तैयार किया जाएगा।

जामिया के सेंटर फॉर कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग के तहत आरसीए चलती है।

आरसीए नियमित क्लास के अलावा परीक्षाओं, विशेषज्ञों के लेक्चर, माँक इंटरव्यू के द्वारा छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करती है। इन छात्रों को हास्टल के साथ चैंबिसों घंटे लाइब्रेरी की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है।

साल 2010 में अस्तित्व में आने के बाद से आरसीए से परीक्षण पाए लगभग 200 छात्र लोक सेवक, यानी आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईएफओएस, आईआरएस, और आईआरटीएस बन चुके हैं। इसके अलावा, तकरीबन 250 छात्र एसडीएम और डीएसपी के तौर पर प्रोविन्शियल सिविल सर्विसेज़, आरबीआई:ग्रेड बी:, असिस्टेंट कमांडेन्ट:सीएपीएफ:, आईबी, असिस्टेंट कमिश्नर:प्रोविडेंट फंड:, बैंक पीओ आदि के लिए चुने गए।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक